

# लघु पनबिजली (एसएचपी) मॉड्यूल छात्रों की अभ्यास पुस्तिका



आईटीआई के छात्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर<sup>1</sup>  
अध्ययन सामग्री

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
भारत सरकार

विषय—वस्तु विकास, संपादन, तथा रूपांकन  
न्यू कॉन्सेप्ट इफोर्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि., नई दिल्ली  
ईमेल: [communication@newconceptinfosys.com](mailto:communication@newconceptinfosys.com)  
वेबसाइट: [www.newconceptinfo.com](http://www.newconceptinfo.com)

# लघु पनबिजली (एसएचपी) मॉड्यूल के लिए छात्रों की अभ्यास पुस्तिका

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
भारत सरकार



## विषय-सूची

अध्याय 1. नवीकरण या अक्षय स्रोत क्या है?	5
अध्याय 2. लघु जलविद्युत – कार्य के आधारभूत सिद्धांत	6
अध्याय 3. एसएचपी का कार्य	7
अध्याय 4. एसएचपी में विद्युत और यांत्रिक उपकरण	8
अध्याय 5. शीर्ष और प्रवाह का मापन	9
अध्याय 6. विद्युत का उत्पादन	10
अध्याय 7. एचएचपी के उपयोग का आर्थिक लाभ	11
अध्याय 8. पनचक्कियां	12



## अध्याय 1.

### नवीकरण या अक्षय स्रोत क्या है ?

प्र. 1. जलचक्र पर एक टिप्पणी लिखें

---

---

---

प्र. 2. लघु जलविद्युत एक व्यावहारिक विकल्प क्यों है?

---

---

---

## अध्याय 2.

# लघु जलविद्युत – कार्य के आधारभूत सिद्धांत

प्र. 1. लघु जलविद्युत संयंत्र कैसे कार्य करता है, स्पष्ट करें

---

---

---

---

प्र. 2. आवेश या इंपल्स टर्बाइन और प्रतिक्रिया टर्बाइन क्या हैं?

---

---

---

---

## अध्याय 3. एसएचपी का कार्य

प्र. 1. एसएचपी के मुख्य भागों का संक्षेप में विवरण दें।

---

---

---

---

## अध्याय 4.

# एसएचपी में विद्युत और यांत्रिक उपकरण

प्र. 1. प्रतिक्रिया टर्बाइनों के क्या—क्या प्रकार हैं? संक्षेप में बताएं।

---

---

---

प्र. 2. एचएचपी चालन प्रणाली के क्या—क्या अंग हैं?

---

---

---

प्र. 3. जेनेरेटरों के क्या—क्या प्रकार हैं? संक्षेप में बताएं।

---

---

---

प्र. 4. गवर्नर किसे कहते हैं?

---

---

---

प्र. 5. गति वर्धक यंत्र की जरूरत क्यों होती है?

---

---

---

## अध्याय 5. शीर्ष और प्रवाह का मापन

प्र. 1. आप सर्वोत्तम जल स्रोत का चयन कैसे करेंगे?

---

---

---

प्र. 2. बंद डाइवर्जन प्रणाली में शीर्ष के मापन की विभिन्न विधियां क्या—क्या हैं? संक्षेप में बताएं।

---

---

---

## अध्याय 6. विद्युत का उत्पादन

प्र. 1. प्रवाह का आकलन कैसे किया जाता है?

---

---

---

प्र. 2. ड्राफ्ट द्यूब के क्या लाभ हैं?

---

---

---

प्र. 3. शीर्ष की क्षति के कारण बताएं?

---

---

---

प्र. 4. आप एसएचपी की कुल कार्यक्षमता का आकलन कैसे करेंगे?

---

---

---

## अध्याय 7.

# एचएचपी के उपयोग का आर्थिक लाभ

प्र. 1. एचएचपी के लाभों और कमियों के बारे में बताएं?

---

---

---

---

## अध्याय 8.

### पनचकिकयां

प्र. 1. पनचकिकयों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

---

---

---

प्र. 2. नई उन्नत पनचककी के स्थापन की कार्य प्रक्रिया को स्पष्ट करें।

---

---

---

प्र. 3. पनचकिकयों के रख—रखाव पर टिप्पणी लिखें।

---

---

---

प्र. 4. उन्नत या सुधरी हुई पनचककी के प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें

---

---

---







